



: : आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : :
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan,
रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,
राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: commrappl3-cexamd@nic.in



सत्यमेव जयते

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा :-

DIN- 20230364SX0000992025

क	अपील / फाइल संख्या/ Appeal / File No.	मूल आदेश सं / OIO No.	दिनांक / Date
	GAPPL/COM/STP/2737/2022	AC/JAM-I/ST/30/2022-23	04-08-2022

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

RAJ-EXCUS-000-APP-062-2023

आदेश का दिनांक / Date of Order:	09.03.2023	जारी करने की तारीख / Date of issue:	13.03.2023
------------------------------------	-------------------	--	-------------------

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

M/s. Hotel Nova KD Comfort, Prop. Shri Prakashsinh Rajpurohit, C/o A D Vyas & Co., Chartered Accountant, Kotechanagar Main Road, Opp Kotecha Girls School, Off Kalawad Road, Rajkot-360001.

इस आदेश (अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित-तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है। /
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। /

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए। /

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए। /

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्वयं आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/- Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती है एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्वयं आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

Application under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fee of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is upto Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five Lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.



- (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जमाना विवादित है, या जमाना, जब केवल जमाना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
(ii) सेनबेट जमा की ली गई गलत राशि
(iii) सेनबेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्त यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं० 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थान अर्जों एवं अपील को लागू नहीं होगा। / For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,
Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपूरतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
- (i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
- (ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- (iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
- (iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं० 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संश्लेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साथ के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
- (vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।
जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
- (D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त बंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पत्री कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
- (E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
- (F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
- (G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbcc.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbcc.gov.in



अपील आदेश /ORDER-IN-APPEAL

M/s Hotel Nova K.D Comfort, Prop. Shri Prakashsinh Rajpurohit, C/o A.D Vyas & Co, Chartered Accountant, Kotechanagar Main Road, Opp. Kotecha Girls School, Off Kalawad Road, Rajkot-360 001 (hereinafter referred to as the appellant) has filed appeal No. GAPPL/COM/CEXP/2737/2022 against Order-in-Original No.AC/JAM-I/ST/30/2022-23 dated 04.08.2022 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, Central Excise & CGST, Division-I, Jamnagar (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

2. Facts of the case, in brief, are that the appellant is engaged in business of providing services of accommodation in hotels. During the course of audit, it was noticed that (i) the appellant has not paid service tax on rent income, (ii) wrongly availed exemption on accommodation in hotel service, (iii) not reversed Cenvat credit on inputs and input services used for providing exempted service, (iv) wrongly availed Cenvat credit on SBC and used for payment and (v) not filed late fee for late filing of ST-3 return. Therefore, a show cause notice dated 30.09.2020 was issued for recovery of service tax/ Cenvat Credit and for imposing penalty. The adjudicating authority, after considering the submissions of the appellant, (i) confirmed the demand of service tax of Rs.26,229/- along with interest of Rs.17,829/- on rent income and imposed penalty of Rs.26,229/- under Section 78 of the Finance Act, 1994, (ii) dropped demand of Rs.8,15,854/-, (iii) confirmed the demand of Cenvat credit of Rs.6,40,054/- along with interest and imposed penalty of Rs.6,40,054/- under Section 78 of Finance Act, 1994, (iv) confirmed demand of Cenvat credit of Rs.31,707/- with interest and imposed penalty of Rs.31,707/- under Section 78 of Finance Act, 1994, (v) confirmed late fee of Rs.500/- and (vi) imposed penalty of Rs.10,000/- under Section 77 of the Finance Act, 1994.

3. Being aggrieved, the appellant filed appeal wherein they, *inter alia*, submitted that the adjudicating authority erred in demanding Cenvat credit availed to provide output services, because services used to provide output taxable service and not used for providing exempted services. The appellant submitted that the adjudicating authority should differentiate between exempted services and taxable service and erred in demanding Cenvat credit availed. They also contended that the adjudicating authority erred in confirming interest and imposing penalties under Section 77 and 78 of the Finance Act, 1994.

4.1 Chartered Accountant G.N. Acharya appeared for personal hearing held on 02.08.2023 and handed over additional written submissions. He reiterated



Handwritten signature

the grounds therein and those in the appeal. He submitted that services relating to providing accommodation in a hotel are exempted only in cases where daily tariff is less than Rs.1,000/-. In other cases their services are not exempted. Therefore, they are eligible to avail Cenvat credit in such cases and denial of credit by adjudicating authority is not correct. Therefore, he requested to set aside Order-in-Original and allow the appeal.

4.2 In the written submission, the appellant reiterated the submissions made in grounds of appeal. In addition, the appellant submitted that according to the definition of exempted service, taxable services which are exempt from the whole of service tax leviable thereon, whereas they were providing services of 'accommodation in hotel' which are not exempted from the whole of the service tax levy. Further, the services provided by them are also not covered under Section 66 of the finance Act, 1994 and hence services provided by them are not fulfilling the criteria of 'exempted service'. The appellant further submitted that rule 6(1) of Cenvat Credit Rules is restricting availability of Cenvat credit, which is used for provision of exempted service.

5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, grounds of appeal in the appeal memorandum and written as well as oral submissions made at the time of personal hearing. The appellant, in the present appeal, is only contesting the confirmation of demand of Cenvat credit Rs.6,40,054/- along with interest and penalty of Rs.6,40,054/- imposed under Section 78 of Finance Act, 1994. The contention raised by the appellant, in this regard, is that according to the definition of exempted service, taxable services which are exempt from the whole of service tax leviable thereon, whereas they were providing services of 'accommodation in hotel' which are not exempted from the whole of the service tax levy. However, the contention raised by the appellant seems to be contradictory in as much as the appellant has claimed exemption from payment of service tax on the income from hotel accommodation where daily tariff is less than Rs.1,000/- before the adjudicating authority. The adjudicating authority, considering the evidence produced by the appellant, dropped demand of Rs.8,15,854/- and allowed exemption as per Sr.No.18 of Notification No.25/2012-ST. Thus, it is evident that the appellant has provided taxable as well as exempted service. Therefore, the contention of the appellant that they had not provided exempted service is not tenable.

6. The contention of the appellant, that according to the definition of exempted service, taxable services which are exempt from the whole of service tax leviable thereon, while they were providing services of 'accommodation in hotel' which are not exempted from the whole of the service tax levy is fallacious.



Rule 2(e) of Cenvat Credit Rules, 2004 defined exempted service as under:

(e) "exempted service" means a -

(1) taxable service which is exempt from the whole of the service tax leviable thereon; or
(2) service, on which no service tax is leviable under section 66B of the Finance Act; or
(3) taxable service whose part of value is exempted on the condition that no credit of inputs and input services, used for providing such taxable service, shall be taken;

but shall not include a service -

(a) which is exported in terms of rule 6A of the Service Tax Rules, 1994; or

(b) by way of transportation of goods by a vessel from customs station of clearance in India to a place outside India;]

7. From the plain reading of the above provision, it is clear that taxable service which is exempt from the whole of service tax leviable is falling under the definition of 'exempted service'. In this case, the service of hotel accommodation provided by the appellant where daily tariff rate was below Rs.1,000/- was exempted by way of Sr.No.18 of Notification No.25/2012-ST. The appellant paid service tax on the hotel accommodation provided by the appellant where daily tariff rate above Rs.1,000/-. Thus, the appellant provided taxable as well as exempted service. Therefore, as per Rule 6(3) of Cenvat Credit Rules, 2004, the appellant was required to reverse an amount equal to 7% of the value of exempted service or an amount as determined under sub-rule 6(3A) of Cenvat Credit Rules, 2004. Rule 6(3) of Cenvat Credit Rules, 2004 reads as under:

(3) (a) A manufacturer who manufactures two classes of goods, namely :-

(i) non-exempted goods removed;

(ii) exempted goods removed;

or

(b) a provider of output service who provides two classes of services, namely :-

(i) non-exempted services;

(ii) exempted services,

shall follow any one of the following options applicable to him, namely :-

(i) pay an amount equal to six per cent. of value of the exempted goods and seven per cent. of value of the exempted services subject to a maximum of the sum total of opening balance of the credit of input and input services available at the beginning of the period to which the payment relates and the credit of input and input services taken during that period; or]

(ii) pay an amount as determined under sub-rule.(3A) :

8. The appellant has not opted for paying amount as per rule 6(3)(ii) *ibid*, and instead, contended that they have not provided any exempted service. Therefore, I do not find any infirmity in the order of adjudicating authority demanding an amount equal to 7% of the value of exempted services provided by the appellant during the period under demand. As the appellant provided taxable and exempted service simultaneously, and also availed Cenvat credit on inputs and input services, it was their liability to determine and pay the amount as required under Rule 6(3) of Cenvat Credit Rules, 2004. Since the appellant failed to comply with the provisions of Rule 6(3) *ibid*, the adjudicating authority has correctly imposed penalty under Section 78 of Finance Act, 1994 read with rule

Cenvat Credit Rules, 2004 and Section 77 of the Finance Act, 1994.



Therefore, the impugned order is sustainable and the appeal is liable for rejection.

9. In view of the above, I uphold the impugned order and reject the appeal.

१०. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

10. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above.

सत्यापित / Attested

आर. भेस. बोरीचा / R. S. BORICHA
अधीक्षक / Superintendent
के. व. एवं सेवा कर अपीलस, राजकोट
CGST Appeals, Rajkot

(शिव प्रताप सिंह / SHIV PRATAP SINGH)
आयुक्त (अपील) / Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

सेवा में, मेस्सेर्स होटल नोवा के डी कम्फर्ट प्रो श्री प्रकाशसिंह राजपुरोहित C/o, ए डी व्यास & कुं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोटेचनागर मईन रोड, कोटेचा गर्ल्स स्कूल के सामने ऑफ कलावाड रोड, राजकोट 360 001.	To M/s Hotel Nova K.D Comfort, Prop. Shri Prakashsinh Rajpurohit, C/o A.D Vyas & Co, Chartered Accountant, Kotechanagar Main Road, Opp. Kotecha Girls School, Off Kalawad Road, Rajkot-360 001
--	--

प्रतिलिपि:-

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद।
- 2) प्रधान आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट।
- 3) ऊप आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, रमंडल-1, जामनगर।
- 4) गार्ड फाइल।

